

Maps | APIs | Navigation | Tracking | GIS

Date: May 22, 2022

The Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001

BSE SCRIP Code: 543425

The Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai 400 051

NSE Symbol: MAPMYINDIA

Subject:

Copy of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the quarter

and year ended March 31, 2022, published in newspaper.

Dear Sir / Madam,

Please find attached copies of Standalone and Consolidated Audited Financial Results / Statements for the quarter & year ended March 31, 2022, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi Edition) each on May 22, 2022.

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For C.E. Info Systems Limited

Saurabh Surendra Somani

Company Secretary & Compliance Officer

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

JSPL appoints Ramkumar Ramaswamy as CFO



PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 21

STEELMAKER JSPL on Saturday announced the appointment of Ramkumar Ramaswamy as its chief financial officer (CFO) with immediate effect.

Prior to joining the company, he was with Vedanta as CFO for group commercial & marketing, Jindal Steel and Power (JSPL), said in a BSE filing.

Ramaswamy comes with 25 years of functional experience across sales and marketing, supply chain, controllership, financial planning and analysis, treasury, investments, tax, shared services and digital transformation, the filing said.

He has diverse industry experience spanning across FMCG, chemicals, oil & gas, metals, minerals, and natural resources sectors.

Part of O P Jindal Group, JSPL is an industrial house present across steel, power and appointed to the board as a mining sectors with investments worth over ₹90,000 crore across the globe.

VIJAY SHEKHAR SHARMA REAPPOINTED

Paytm forms JV insurance firm

Company to invest ₹950 cr in 10 years

FE BUREAU New Delhi, May 21

THE BOARD OF One 97 Communications Limited (OCL), the parent of Paytm, has approved an investment of up to ₹950 crore in Paytm General Insurance Limited (PGIL), a joint venture, for a stake of 74%.

The investment will be made in tranches over a period of 10 years. In a regulatory filing, the company said OCL will hold a stake of 49% PGIL in the initial phase, with the remaining 51% being owned by VSS Holding Private Limited (VHPL), owned by Vijay Shekhar Sharma, managing director, OCL.

Post the investment, OCL will hold 74% in PGIL, lowering VHPL's stake in the insurance venture to 26%. PGIL will be a subsidiary of OCL.

The OCL board also reappointed Sharma as the company's managing director for a period of five years until December 18, 2027. Madhur Deora, the company's Group CFO and president, was whole-time director for the next five years.

STAKEHOLDING IN JOINT VENTURE



■ Initially, One97 Communications will hold a 49% stake in Paytm General Insurance

■ The remaining 51% stake is to be owned by OCL's MD Vijay Shekhar Sharma-led VSS Holding

■ Post the investment, Paytm will hold 74% stake in PGIL, reducing VHPL's stake in the firm to 26%

ture comes after OCL's attempt to acquire Mumbai-headquartered Raheja QBE General **Insurance Company Limited** fell through.

On Friday, the digital financial services player reported a loss of ₹780 crore for the March quarter due to higher expenses related to payments processing, marketing and employee benefits. Revenue grew 89% year-

on-year to ₹1,541 crore, while the Ebitda (before ESOPs) for the quarter increased by 12% y-o-y. For FY22, the revenues jumped by 77% to ₹4,974 crore.

The company's Ebitda loss (before ESOP) for FY22 narrowed ₹1,518 crore from The general insurance ven- ₹1,655 crore the previous year.

The company believes it will show accelerated reduction in Ebitda losses and is on track to achieve profitability (before ESOP) by September

2023 quarter. The OCL stock has lost more than 50% this year following a bearish phase in tech stocks in global markets and also due to regulatory issues faced by the company.

"PGIL intends to register for and undertake general insurance business. PGIL is yet to commence its general insurance business, which is presently subject to receipt of certificate of registration from Irdai (Insurance Regulatory and Development Authority of India)," the filing with the stock exchanges said.

PGCIL Q4 net rises 18%

POWER GRID CORPORATION of India Ltd on Saturday posted about 18% rise in its consolidated net profit at ₹4,156.44 crore for the March 2022 quarter, backed by higher income.

The company's consolidated net profit stood at ₹3,526.23 crore in the yearago quarter, Power Grid Corporation of India said.

For Immediate Sale!

Fully Developed Export Quality Pomegranate (16000 plants) and Custard Apple (1100 plants) Farm for Sale. reservoirs of 3 crore litres each at Chargone, Madhya Pradesh which can provide a tax-free profit of Rs. 3 Crore/Year. of all types of Punches used in Dye of Shoe ndustry and all types of motor, and other

Interested Parties, Please Contact singhania@cygnusgroup.in e 9831029166, 9899129166

CNG price hiked by ₹2/kg gas prices started to climb as economies around the world

Rates went up by ₹19.60/kg in 2 mths

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 21

THE PRICE OF CNG in the national capital on Saturday was hiked by ₹2 per kg, the 13th increase in rates in just over two months.

CNG in the National Capital Territory of Delhi now costs ₹75.61 per kg, up from ₹73.61 per kg, according to the information posted on the website of Indraprastha Gas (IGL) — the firm which retails CNG and piped cooking gas in the national capital and adjoining cities. This is the 13th increase in

price since March 7.

In all, the CNG price has risen by ₹19.60 per kg during

Grow with us. Build your future.

Registrations for **BITSAT 2022**

online admission test

for integrated first degree

programmes are now open.



piped to household kitchens, called piped natural gas (PNG), per scm.

City gas distributors have been periodically raising prices since October last year, when domesticaswellasinternational

this period. In the last one year, prices have increased by ₹32.21 per kg or 60%, according to data compiled by PTI.

However, the rates of gas remain unchanged at ₹45.86


recovered from the pandemicinduced slowdown. IGL managing director Sanjay Kumar said the prices are there was a steady increase of about 50 paise a kg almost

likely to remain elevated in the near future due to high international prices of natural gas. CNG prices rose by ₹8.74 per kg in the last three months of 2021, and from January

every week. The rates have gone up after the government more than doubled the price of natural gas produced locally to \$6.1 per million British thermal unit from April 1. With domestically produced gas not sufficient to meet city gas demand, imported fuel (LNG) is being used. LNG in the spot

or current market costs \$18-

20 per mmBtu.



before commencement of the admission processes

Options for fees payment are available on the website.

transparency, innovation, and enterprise have

characterized its steady march to eminence. It is the

form by paying the requisite fees.

for the future reference.

Visit: www.bitsadmission.com and fill up the prescribed application

Applicants are advised to take the print out of the application form

The application fee is non-refundable and non-transferrable.

For further details scan the QR code below or visit: www.bitsadmission.com

BITS Pilani, which has been conferred the status of an Institution of

Eminence by the Ministry of Education, Gol, is India's leading Institute of

Higher Education with an illustrious legacy, modern campuses, legendary

placement and eminent alumni in leadership positions across the world.

The Institute's commitment to excellence, adherence to merit,

Fill the online form along with the prescribed fee soon. The deadline to register for BITSAT 2022 is 10th June, 2022. **ELIGIBILITY CRITERIA** For AY 2022-23, the BITSAT-2022 will be conducted two times

For admission to any of the above Integrated First Degree Programmes

except Dubai campus. for which BITSAT is not essential) the student should have passed the 12th class examination of 10 +2 system from a recognized Central or State board or its equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics (PCM). For admission to B.Pharm, the eligibility criteria is Physics, Chemistry

and Biology or PCM. The student should have obtained a minimum of 75% aggregate

marks in Physics. Chemistry and Mathematics/Biology subjects in the 12th class examination, with at least 60% marks in each of the subjects and possess adequate proficiency in English. Only students appearing for 12th class examinations in 2022 or who

have already passed in 2021 are eligible to appear for BITSAT 2022.

Students who are presently studying in BITS at any of its campuses

are not eligible. Admissions will be made based on the merit position

of the student's BITSAT 2022 score.

Dean, Academic - Undergraduate Studies, BITS Pilani

Around 30% of the students receive scholarships during their studies at BITS Pilani.

This year scholarships will be made available to the selected students even before admissions.

Students who appear for BITSAT 2022 can also seek admission to the BITS Pilani Dubai campus.

For more details, visit: https://universe.bits-pilani.ac.in/dubai Students with a foreign passport and valid SAT scores are also eligible to apply for admissions to Pilani, Goa and Hyderabad campuses under the International Student Admission Scheme. For more details, visit: www.bitsadmission.com/ois



Multiple CBI search operations in NSE scam

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 21

THE CENTRAL BUREAU of Investigation (CBI) launched a coordinated search operation at over 10 locations in multiple cities on Saturday in connection with the NSE co-location scam case, officials said. The search operation will

cover brokers at more than 12 premises in Mumbai, Gandhinagar, Delhi, Noida, Gurugram and Kolkata, among other cities, they added. The central agency has filed a chargesheet against former National Stock Exchange (NSE) CEO and MD Chitra Ramkrishna and group operating officer Anand Subra-



Chitra Ramkrishna

manian in the case, the officials said.



The probe has so far estab-



lished that from 2010 to 2015, when Ramkrishna was managing the affairs of the NSE, OPG Securities, one of the accused in the FIR, had connected to the secondary POP server on 670 trading days in the "Futures and

Options" segment. The CBI has kept the probe open into allegations of preferential access granted to certain

> brokers by NSE officials and undue gains made out of it during the tenure of Ramkrishna and Subramanian. Ramkrishna, who succeeded former CEO Ravi Narain

in 2013, had appointed Subramanian as her advisor, who was later elevated as the group operating officer (GOO) at a fat paycheque of ₹4.21 crore annually, the officials said.

The agency is also probing unidentified officials of the Securities and Exchange Board of India (Sebi), NSE, Mumbai and other unidentified people.

BHEL returns to black; posts ₹912-cr net

BHELON SATURDAY returned to black, posting ₹912.47 crore consolidated net profit in the March quarter, backed by higher income. In the year-ago quarter the firm had reported a consolidated net loss of ₹1,036.32 crore, according to a regulatory filing. Total income during January-March 2022, rose to ₹8,181.72 crore, from ₹7,245.16 crore in the year-ago period. Its expenses cut to ₹7,091.29 crore in comparison to ₹8,644.28 crore in January-March of 2020-21 fiscal year.

According to the filing, the board of the firm has also approved a final dividend of ₹0.40 per share on the paid-up share capital of the company for the financial year 2021-22. —PTI

Mapmy India MAPPLS C. E. INFO SYSTEMS LIMITED (formerly known as C.E. Info Systems Pvt. Ltd.) Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot. No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase- III, New Delhi 110 020, India CIN: L74899DL1995PLC065551 ;Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900. Financial Year 2022 PAT PAT up Revenue **EBITDA** up 31% to 45% to Rs Margin at Margin at 87 Cr 36% Rs 200 Cr 43%

Extract of audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

Sr.		7 8	Quarter ended	0 "	Year ended	Year ended	
or. No.	Particulars	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
NU.	STOCK STATE OF STATE	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total income from operations (net)	5,533.21	4,305.46	4,738.11	19,816.00	15,237.64	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,389.94	1,899.54	2,473.40	11,519.86	7,925.07	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,389.94	1,899.54	2,473.40	11,519.86	7,925.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,358.53	1,575.15	2,043.53	8,554.62	6,018.29	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,442.61	1,545.37	2,018.50	8,549.37	6,042.62	
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- for the year ended March 31, 2022)	1,064.86	1,064.86	13,279.65	1,064.86	13,279.65	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c.as shown in the Balance Sheet of previous year)	42,749.20	41,330.40	22,673.06	42,749.20	22,673.06	
8	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)						
	(a) Basic (b) Diluted	4.59 4.48	2.96 2.90	3.89 3.78	16.07 15.67	11.44 11.13	

Extract of audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

Sr.		Quarter ended			Year ended	Year ended
No.	Particulars	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	A	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	5,704.08	4,337.25	4,742.52	20,044.07	15,246.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,350.52	2,178.33	2,402.43	11,733.07	7,888.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,350.52	2,178.33	2,402.43	11,733.07	7,888.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,258.42	1,852.04	1,904.61	8,706.70	5,982.3
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,343.77	1,821.17	1,879.06	8,702.71	6,007.20
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- for the quarter and nine months ended December 31, 2021)	1,064.86	1,064.86	13,279.65	1,064.86	13,279.6
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c.as shown in the Balance Sheet of previous year)	43,530.96	41,429.88	22,494.00	43,530.96	22,494.00
8	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)	4.24	3.48	3.63	40.04	44.0
	(a) Basic (b) Diluted	4.24	3.48	3.53	16.34 15.94	11.38 11.06

Date: May 21, 2022

 The above is an extract of the detailed format of audited results for the quarter and year ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited results for the quarter and year ended 31st March 2022 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website at www.mapmyindia.com

3. The above audited Standalone & Consolidated Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the "Company") are available on Company's website www.mapmyindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed 4. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) specified under section 133 of the Companies Act. 2013, other accounting

2. The previous periods numbers have been re-grouped and re-arranged wherever necessary to conform the current period presentation

Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended). 5. Figures for the guarters ended 31 March 2022 and 31 March 2021 represents the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year to date reviewed figures upto the third quarter of the years ended 31 March 2022 and 31 March 2021 respectively. 6. The above Standalone & Consolidated Financials Results of the Company for the guarter and year ended March 31, 2022 (the "statement") were reviewed by Audit

principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 20, 2022. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on these Audited financial results. 7. The Company has only one business segment, i.e. Map data and Map data related services (GPS navigation, location-based services and IoT). This business mainly consists of products like digital map data, GPS navigation and location-based services, licensing, royalty, annuity, subscription and customizing its products

The Board of Directors at its meeting held on February 4, 2022 had recommended interim dividend (Rs 2 per equity share of par value Rs 2 each) for the financial year ended March 31, 2022. The aforesaid dividend was paid during the year ended March 31, 2022. The same has been treated as final dividend for the year

9. During the quarter ended March 31, 2022. The Company had acquired 75.98% shares of Gtropy Systems Private Limited for a cash consideration of INR 1350.02

The securities of the Company got listed with BSE & NSE w.e.f. 21.12.2021 through offer for sale.

11. The Company has not received any amount as proceeds from public issue of its shares.

Place: New Delhi

For and behalf of the Board of Directors of C.E. Info Systems Limited Rakesh Kumar Verma Managing Director DIN: 01542842



The women who fought, the women we must know. Follow their stories on www.indianexpress.com



Meta



श्रीनगर, 21 मई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के कई हिस्से शनिवार को मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी पर बंद रहे। बंद का आह्वान हुर्रियत कांफ्रेंस के उदार धड़े ने किया था, जिसकी अध्यक्षता मीरवाइज उमर फारूक करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौहट्टा, गोजवारा और राजौरी कदाल सहित शहर के कई हिस्सों में अधिकतर दुकानें बंद रहीं।

उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि इन इलाकों के साथ-साथ शहर के बाकी हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के अन्य हिस्सों सहित बाकी जिलों में दकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं।

उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था की समस्या से निपटा जा सके। अलगावादी धडे ने लोगों से अपील की है कि वे बुधवार को

ईदगाह आएं और उनके लिए नमाज अदा करें। उल्लेखनीय है कि ईदगाह में ही दोनों नेताओं को दफनाया गया है। अब्दुल गनी लोन प्रमुख हर्रियत नेता और पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन के पिता थे, जिनकी हत्या 21 मई, 2002 को कश्मीर के पूर्व मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की बरसी पर आयोजित रैली के दौरान कर दी गई थी। मौलवी फारूक, हर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के पिता थे, जिनकी हत्या 21 मई, 1990 को कर दी गई थी। इस बीच अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि अब्दुल लोन की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह कहते थे कि जिन्होंने उनकी (फारूक की) हत्या की है वे आतंकवादी हैं और जहन्तुम में सड़ेंगे। माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने दोनों दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हए कहा कि दोनों का संवाद में पुरा विश्वास था।

मप्र : पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तार

गुना, 21 मई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में पिछले सप्ताह शिकारियों के हाथों तीन पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या पांच हो गई है, लेकिन दो आरोपी अब भी फरार हैं। गुना के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजीव कुमार मिश्र ने कहा कि मामले में शामिल इरशाद खान को शुक्रवार शाम को बजरंगगढ़ बाइपास से गिरफ्तार किया गया है। इरशाद अवैध शिकार के दौरान आरोपियों के साथ था।

मिश्र ने बताया कि 14 मई को तीन पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में अब तक तीन आरोपी मारे जा चुके है और पांच को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर सागा बरखेड़ा गांव के पास शिकारियों के एक समूह द्वारा गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

हत्या के आरोप में युवती और उसका चाचा गिरफ्तार

बदायूं (उप्र), २१ मई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेम संबंधों के चलते एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को कर हत्या कर दी। यह जानकारी दी। बिसौली कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट गांव के रहने वाले रविंद्र पाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका पुत्र दिनेश (21) बिल्सी थाना क्षेत्र के अंगोला गांव की एक युवती से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घरवालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय कर दी।

गया कि 12 मई को युवती की शादी थी लेकिन दिनेश उस पर घर से भाग कर विवाह करने का दबाव बना रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि युवती ने अपने

चाचा राजाराम के साथ मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 10 मई को दिनेश को फोन करके अपने गांव बुला लिया और उसकी गला दबा

उन्होंने बताया कि 12 मई को युवती की शादी हो गई, 13 मई को दिनेश के परिजन ने उसके गायब होने की सुचना पुलिस को दी। दिनेश की गुमशुदगी के पीछे युवती और उसके परिजन का हाथ होने का शक जताया। बदायुं के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि दिनेश के परिजनों के शक के आधार पर लडकी और उसके चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शिकायत में आरोप लगाया जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। वर्मा ने बताया कि लडकी के चाचा की निशानदेही पर कुएं से दिनेश का शव बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।



कॉम्प्लैक्स, सिविल लाइन्स रोड, गुड़गाँव हरियाणा-122001 ई-मेल: gurgao@ bankofbaroda.com

सार्वजनिक सचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुड़<mark>गांव मुख्य शाखा, एससीओ-41, ओल्ड ज्युडिसियल कॉम्प्लैक्स, सिविल</mark> **लाइन्स रोड, गुड़गाँव हरियाणा**- 122001 ने उनके द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के लिये प्रतिभूति के रुप में **मै**. **वाईएफसी प्रॉजेक्ट्स प्रा. लि.**) जिसका पंजीकृत कार्यलय बी- 28, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली में एवं व्यवसाय का पता वाईएफसी हाउस, प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-बी, इन्फोसिटी, सेक्टर-34, गुडगाँव, हरियाणा में है, के नाम में स्थित नीचे वर्णित सम्पत्ति को स्वीकार किया है।

यदि किसी व्यक्ति का नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कोई अधिकार/टाइटल/हित/दावा हो, उन्हें सलाह दी जाती है कि 10 दिनों के नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि सम्पत्ति किसी भी चार्ज/दावे/अधिभार से मुक्त है तथा बैंक मार्टगेज के लिये आगे बढ़ेगा। सम्पत्ति का विवरण : मै. वाईएफसी प्रॉजेक्ट्स प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. 14, ब्लॉक बी, इन्फोसिटी, सेक्टर 33 एवं 34, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-8) तहसील एवं जिला गुडगाँव, हरियाणा, माप 1014 वर्ग मी. में स्थित भूमि एवं भवन उक्त सम्पत्ति की चौहदी: उत्तर-पूर्व: प्लॉट नं. बी-13, दक्षिण-पश्चिम: प्लॉट नं. बी-15,

दक्षिण-पर्वः प्लॉट नं. बी-21, उत्तर-पश्चिमः रोड बैंक ऑफ बड़ौदा गुड़गाँव मुख्य शाखा

एससीओ-41, ओल्ड ज्यूडिसियल कॉम्प्लैक्स, सिविल लाइन्स रोड, गुरुग्राम- 122007 सम्पर्क : 0124-4949300/306

आकाश कौशिक, अधिवक्ता पताः 202, 2 रा तल, डीएलएफ कुतुब प्लाजा, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम-122002, सम्पर्क न. 9818596123

110 district

कॉम्प्लैक्स, सिविल लाइन्स रोड, गुड़गाँव हरियाणा-122001 ई-मेलः gurgao@ bankofbaroda.com सार्वजनिक सचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुड<mark>़गांव मुख्य शाखा, एससीओ-41, ओल्ड ज्यूडिसियल कॉम्प्लैक्स,</mark> सिविल लाइन्स रोड, गुडगाँव हरियाणा- 122001 ने उनके द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के लिये प्रतिभृति के रुप में मै, फ्रैण्डस इस्टेट प्रा. लि. (अब मै० वाईएफसी प्रॉजेक्टस प्रा. लि.) जिसका पंजीकत कार्यलय बी- 28, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली में एवं व्यवसाय का पता वाईएफसी हाउस, प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-बी, इन्फोसिटी, सेक्टर-34, गुडगाँव, हरियाणा में है, के नाम में स्थित नीचे वर्णित सम्पत्ति को स्वीकार किया है। यदि किसी व्यक्ति का नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कोई अधिकार/टाइटल/हित/दावा हो, उन्हें सलाह दी जाती है कि 10 दिनों के भीतर अपने दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाणों के साथ बैंक में सम्पर्क करें। यदि 10 दिनों के भीतर कोई

जवाब प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि सम्पत्ति किसी भी चार्ज/दावे/अधिभार से मक्त है तथा बैंक मार्टगेज सम्पत्ति का विवरण : फ्रैण्डस इस्टेट प्रा. लि. (अब. मै. वाईएफसी प्रॉजेक्टस प्रा. लि.) के नाम में उस पर स्थित सभी भूमि एवं भवन तथा संरचनाओं के साथ ग्राम झरसा तहसील एवं जिला गुड़गाँव (हरियाणा) की राजस्व सम्पदा र

स्थित खेवत नं. 462, खाता नं. 606, एम रेक्ट-नं. 46, किल्ला नं. 18/1/2/2, माप 01 कनाल, 10 मरला में प्लॉट।

बैंक ऑफ बड़ौदा गुड़गाँव मुख्य शाखा एससीओ-41, ओल्ड ज्यूडिसियल कॉम्प्लैक्स, सिविल लाइन्स रोड, गुरुग्राम- 122007 सम्पर्क: 0124-4949300/306

पताः 202, 2 रा तल, डीएलएफ कुतुब प्लाजा डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम-122002, सम्पर्क न. 9818596123

कश्मीर बैक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), भूखंड सं. 132–134, सेक्टर–44, गुड़गांव (हरियाणा) भारत, जीएसटीआईएनः 06AAACT6167G1ZB, दूर: 91 (0) 0124.4715800, फैक्स: 91 (0) 0124.4715800. ईमेलः iapmd.del@jkbmail.com, वेबसाइटः www.jkbank.net

ई-नीलामी सूचना (सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बंधककृत अचल संपत्ति / यों की बिक्री के लिए) [नियम 8(6) के प्रावधान का संदर्भ ग्रहण करें]

क्षीण परिसंपत्तियां वसली शाखा

एतद्दवारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणतीओं एवं गारंटरों को सचित किया जाता है दी जम्म एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, बिजनेस युनिट सेक्टर 20 पंचकुला, जनपद मोहाली, हरियाणा के पास बंधककृत निम्न संविर्णत संपत्ति जो है वह मैसर्स यनिसिटी ग्रप, प्रधान कार्यालयी पता- एससीओ 409, प्रथम तल, सेक्टर 20, पंचकूला, यूनीसिटी बिजनेस सेंटर, चंडीगढ़-अंबाला हाईवे के समीप जेपी अस्पताल, जीरकपुर तहसील डेराबस्सी, जनपद मोहाली के पक्ष में दी गई क्रेडिट सुविधा के लिए प्रतिभृति के रूप में रखी गई है, उसका भौतिक आधिपत्य सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, अब ई-नीलामी के माध्यम से 'जैसी है जहां है'' ''जैसी है जो है'' ''वहां पर जो कुछ भी है'' और ''बिना शिकायत आधार'' पर 14.06.2022 को उसका विक्रय किया जाएगा। और यह विक्रय जो होगा वह साझीदारों फर्म की ओर से इसके निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) के माध्यम से बैंक को देय-भूग्तेय बैंक की देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा-

(1) मैसर्स यूनिसिटी ग्रुप एससीओ 409, प्रथम तल, सेक्टर 20, पंचकुला, यहां पर भीः यूनीसिटी बिजनेस सेंटर, चंडीगढ़-अंबाला हाईवे के समीप, जेपी अस्पताल जीरकपूर, तहसील डेराबस्सी, जनपद मोहाली। इसके भागीदारों के माध्यम से। (2) सुनील कुमार पुत्र श्री शीश पाल निवासी संगम मोटर्स, नरवाना रोड पतरन तहसील पतरन,

(3) विजय कुमार पुत्र श्री फकीर चंद निवासी मकान संख्या 50 / ए, वार्ड नंबर 7, तुलसी नगर पतरन, तहसील पतरन, जनपद पटियाला और यहां पर भीः मकान संख्या 1284, प्रथम तल, सेक्टर 21, पंचकुला, तहसील और जनपद पंचकुला, जनपद पटियाला।

(4) श्री मनोज पाल सिंगला पुत्र श्री तरसेम चंद निवासी मकान संख्या 481, लक्म वाल बस्ती, वार्ड नं. ८ पतरन, तहसील पतरन, जनपद पटियाला (5) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री शीश पाल निवासी वार्ड संख्या 10, पीरखाना, पीर कॉलोनी, पतरन,

तहसील पतरन, जनपद पटियाला।

रु. 19,20,97,130.00 खाता संख्याः रु. 05.49 कराड़ (रुपए उन्नीस करोड़ 0531010100000297 रु. 54.90 लाख बीस लाख सत्त्तानबे खाता नामः रु. 01.00 लाख हजार एक सौ तीस मात्र) आईएफएससी कोड़ JAKA0PANCHK	30—04—2022 के अनुसार बकाया राशि	ईएमडी प्रेषण खाता विवरण	आरक्षित मूल्य धराज बोली वृद्धि राशि	ई—नीलामी की तिथि/समय
	(रुपए उन्नीस करोड़ बीस लाख सत्त्तानबे हजार एक सौ तीस	0531010100000297 खाता नामः ई—नीलामी खाता आईएफएससी कोड		14.06.2022 को 15.00 बजे से 16.00 बजे 5 मिनट के विस्तारों के साथ (असीमित)

अचल संपत्ति का विवरण 3 कनाल 9 मरला 3 सरसाई यानि 2093 वर्ग गज की भूमि के समस्त भाग तथा अंश के साथ—साथ

वाणिज्यिक परिसर/ उस पर उठाए या किए गए निर्माण, उनमें 36 वाणिज्यिक इकाइयों / दुकानों / कार्यालयों की संख्या से कम, जिसके संबंध में बिक्री की अनुमित बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा दी गई है) जो ग्राम भावत. "हदबस्त नंबर 234" चंडीगढ-अंबाला हाईवे, जेपी अस्पताल के समीप, तहसील डेराबस्सी जनपद मोहाली में स्थित हैं। 1. भूमि माप 0 कनाल 02 मारला 06 सरसाही (80 वर्ग गज), जो खाता संख्या 969 / 1077, खसरा संख्या 17/22/2/1 (3-12) में समाविष्ट हैं, जिसमें से 3 कनाल-12 मारला का 24/648वें हिस्से का क्षेत्रफल, बिक्री विलेख संख्या 11946 दिनांक 21.12.2010 के द्वारा है।

2. भूमि माप 0 कनाल ७ १/२ मारला (२२५ वर्ग फुट) जो खाता संख्या ८५/९१, खसरा संख्या 34 / / 2 / 3 / 1 (6-10) में समाविष्ट हैं जिसमें से 3 / 130सें हिस्से का क्षेत्रफल 6 कनाल 10 मारला और खाता संख्या 86 / 92, खसरा नं. 17 / / 21 / 2(3-4) जिसका 1 / 32वां हिस्सा 3 कनाल 4 मारला और खाता नंबर 969 / 1077, खसरा नंबर 17 / / 22 / 2 / 1 (3–12) है जो 3 कनाल 13 मरला के 8/216वां हिस्सा है, कुल क्षेत्रफल 0 कनाल 7 1/2 मारला, बिक्री विलेख संख्या 15151 दिनांक 16

3. खाता संख्या 85/90, खसरा संख्या 34//2/3/2(2-1), 8(3-17), 9(7-7) में समाविष्ट भूमि मापन 0 कनाल 6 मारला 6 सरसाही (200 वर्ग गज) बिक्री विलेख संख्या 16749 दिनांक 15.03.2011 के तहत 13 कनाल 5 मारला क्षेत्र का 60 / 2385वां हिस्सा है। 4. खाता संख्या 85/90, खसरा संख्या 3//2/3/2(2-1), 8(3-17), 9(7-7) में समाविष्ट भूमि माप

01 कनाल 10 मारला 6 सरसाही (920 वर्ग गज) 276 / 2358वां अंश, क्षेत्रफल 13 कनाल 5 मारला बिक्री विलेख संख्या 11945 दिनांक 21.12.2010 के तहत। 5. खाता संख्या 85 / 90, खसरा संख्या 34 / / 2 / 3 / 2(2—1), 8(3—17) 9(7—7) में समाविष्ट o कनाल 14 मारला 6 सरसाही (453 वर्ग गज) की भृमि जो 13 कनाल 5 मारला क्षेत्र का 132 / 2385वां हिस्सा

है. बिक्री विलेख संख्या 1185 दिनांक 21.04.2011 के द्वारा है। 6. खाता संख्या 85/91 खसरा नं. 34//2/3/1/(6-10) में समाविष्ट 0 कनाल 7 मारला 01 1/2 सरसाही (215 वर्ग गज) की भूमि, जिसका क्षेत्रफल 6 कनाल 10 मारला और खाता नं. 86/92, खसरा नं. 17 / /21 / 2(3-4) का 45 / 1170वां हिस्सा है जो 19-1 / 2 / 576 क्षेत्रफल का हिस्सा 3

कनाल 4 मरला, कूल 0 कनाल 7 मारला 01 1/2 सरसाही बिक्री विलेख संख्या 15150 दिनांक 16 02.2011 के अनुसार। टिप्पणीः जिसका विवरण नीचे दिया गया है (उनमें वाणिज्यिक इकाइयो / दुकानों / कार्यालयों की संख्या 36 से कम, जिनके संबंध में बैंक द्वारा अनुमति या बिक्री पहले ही दी जा चुकी है और बिक्री के अधीन

प्रथम तल. इकाई संख्याएं 102.103.107.111.112.113.115.116.119.122.123.124.125.126 द्वितीय तल इकाई संख्याएं 203,208,209,211,212,221,222,225,

तृतीय तल इकाई संख्याएं 302, 305, 307, 313, 316, 317, 319, 320, 323, 326 चतुर्थ तल इकाई संख्याएं 416, 423, 429 एवं 431

नियम और शर्तें:-1. ई-नीलामी 14-06-2022 को ''जैसी है जहां है'' ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है' ''बिना शिकायत आधार'' पर आयोजित की जा रही है।

2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभारों, संपत्ति के नामाधिकार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच व निरीक्षण कर लेना चाहिए और खुद को संतुष्ट कर लेना चाहिए। नीलामी में रखी गई संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को www.auctiontiger.net की साइटों पर प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी (जैसा कि ऊपर बताया गया है) एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार से पूर्ण बोलियां 13.06.2022 को

04.00 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं। 3. संपत्तियों और सभी नियमों व शर्तों के पूर्ण विवरण वाले बोली दस्तावेज / प्रारूप वेबसाइट http://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मैसर्स ईप्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं: संपर्क व्यक्ति राम शर्मा-9978591888, संपर्क 079—68136880 / 68136837 मोबाइलः 91 9265562821 / 18, support@auctiontiger.net_ और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए शाखा प्रबंधक / प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी खाता संख्या, खाताधारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा और शाखा के आईएफएससी कोड़ का उल्लेख करें ताकि असफल बोली की स्थिति में राशि तरंत

4. सफल बोलीदाता को बिक्री मुल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर 48 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और बिक्री मूल्य की शेष 75 राशि विक्रय के समापन के 30 वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भगतान में चक किए जाने के मामले में, बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चुककर्ता बोलीदाता का संपत्ति / इससे संबंधित राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार

5. बैंक के पास ई-नीलामी विफल होने की स्थिति में निजी संधि के माध्यम से संपत्ति को बेचने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक अधिकारियों के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं: श्री रजनीश महाजन- मोबा. इल 9967753294 और श्री अजय गुप्ता- मोबाइल 8800548446

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपरोक्त ऋण खातों के उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व तक ब्याज एवं व्ययों के साथ सभी ऋणों के कुल बकाया का भुगतान करने के लिए 15 दिवसीय सुचना भी है। भुगतान करने में विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष राशि, यदि कोई निकलती हो, की वसूली ब्याज एवं व्यय सहित की जायेगी।

दिनांकः 20-05-2022 स्थानः गरुग्राम हरियाणा

हस्ता./- (श्री रजनीश महाजन) प्राधिकृत अधिकारी दी जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्र कार्यालयः अलीगढ कार्यालयः साई विहार, मदन पैलेस के सामने, ग्राम तलासपर कला, रामघाट रोड, अलीगढ़, 202001 ईमेल: cs8183@pnb.co.in

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर के लिये 60 दिनों की सूचना

आप सभी नीचे वर्णित सिक्यरिटीज को एतदहारा सचित किया जाता है कि बैंक ने सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आप प्रत्येक के प्रति कार्यवाही शरू किया है तथा आप सभी को नीचे वर्णित तिथि को स्पीड पोस्ट द्वारा पृथक रूप से अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना भेजी गई लेकिन, सूचना अन-सर्ब्ड विमोचित की गई थी। अतः एतदुद्वारा आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि इसके प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित बकाया राशि का संयक्त एवं पुथक रूप से भगतान करें अन्यथा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत नीचे वर्णित सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित संबोधित की गई है। एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों तथा आम जनता को सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय नहीं करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के

अधीन होगा। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनसार इस सचना की प्राप्ति के बाद आप बैंक की पर्व अनमित के बिना उपरोक्त किसी भी परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) अंतरण करने से वंचित होंगे। आपको यह भी सचना दी जाती है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथा प्रावधानित इस सांविधिक निषेध/प्रतिबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अपराध माना जायेगा। यदि किसी भी कारण से प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में बिक्री अथवा पट्टा की जाती है तो आप उस उगाही/आय का उपयुक्त लेखा उपलब्ध कराने के लिये

उत्तरदायी होंगे। कृपया इस सचूना के अंतर्गत इस मांग का अनुपालन करें तथा अनावश्यक परेशानियों से बचें। अनुपालन नहीं करने पर सभी लागतों एवं परिणामों के लिये आपको उत्तरदायी मानते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

	Sp.	शाखा	ा. खाता सख्या, 2. सुावधा का प्रकार एव	अध्यक्षारका नाम एवं पता	प्रातमूत पारसम्पात्तवा का विवरण
	सं.	कार्यालय	राशि 3. मांग सूचना की तिथि,		
			4. बकाया राशि (रु.)		
1	1.	बी ओ.:	1. 01636015001636	1) विद्या देवी, पत्नी सुखराम सिंह	गली नं. 3, खसरा नं. 37 का भाग, ग्राम अशरफपुर जलाल, पर एवं
		सुभाष रोड,	2. सावधि ऋण 10,00,000/-	निवासी : बापू धाम कॉलोनी, सूतमिल, अलीगढ़	तह. कोईल, अलीगढ़ में स्थित विद्या देवी, पत्नी सुखराम सिंह के नाम
		अलीगढ़	3. 17-05-2022	निवासी : खसरा नं. 37 का भाग, अशरफरपुर जलाल, पर एवं तह.	में आवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रपुल 79.42 वर्ग मी. है। चौहद्दी इस
			4. रु. 3,41,264.47+ 01.5.2022	कोईल, अलीगढ़-202001	प्रकार है:
			से ब्याज	2) दिनेश कुमार, पुत्र सुखराम सिंह	पूर्वः सुशीला देवी का प्लॉट
				निवासी : बापू धाम कॉलोनी, सूतमिल, अलीगढ़	पश्चिम : बबली देवी का प्लॉट
				निवासी : खसरा नं. 37 का भाग, अशरफरपुर जलाल, पर एवं तह.	उत्तर : 25 फीट चौड़ा रास्ता
				कोईल, अलीगढ़-202001	दक्षिण : पार्क

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No.: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-II/2022/D-57

Date: 20.05.2022

NOTICE INVITING BID

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-II/08/2022-23 Bids are invited for works given below in various zones as per details given below :-

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	A&F	Nature of Work	Last Date
1.	EE-6	JDA2223WSOB00078	245.60	30/2022-23	Renewal of Road	09.06.2022
2.	EE-8	JDA2223WLOB00072	670.03	024/2022-23	Construction of RCC Drain Work in Swarn Vihar Scheme	11.06.2022
3.	EE- (ElectIV)	JDA2223WSOB00075	275.50	NR-014/ 2019-20	SITC and Operation Maintenance of Lift Elevators at RIC (5 Year)	13.06.2022

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Raj. Samwad/C/2022-23/2115

Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-II

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

लॉकरों के किराए के बकाया की सचना

लॉकर किराएदारों द्वारा इनके किराए का भगतान नहीं किया गया है और इसलिए यहां उनके विरुद्ध किराए की बकाया राशियां लंबित हैं। बैंक ने बकाया के अंतर्गत अतिदेय लॉकर किराए के भुगतान हेतु संबंधित लॉकर किराएदारों को तीन सूचनाएं निर्गत की हैं, परंतु तब भी किराया जमा नहीं किया गया।

क्र.सं.	लॉकर नं.	ग्राहक नाम	लंबित राशि	पता
1	9	रविंदर गोगिया	₹. 4,720/-	133—सैनिक विहार, दिल्ली
2	74	हर्ष मान	र्च. 8,579 ∕ —	बी—39, पुष्पांजलि एन्क्लेव, दिल्ली
3	90	एस एम नरूला	₹. 8,579/-	बी—271, सरस्वती विहार, दिल्ली
4	209	संतोख सिंह कुमार एवं हरप्रीत कौर कुमार	ਓ. 9,440 ∕ −	ए—5 / 67, सेक्टर—16, रोहिणी, दिल्ली
5	308	फ्लोरेंस राय, एन.पी. राय एवं अनिल राय	₹. 18,408 / -	डी—15, ब्लॉक डी—289, 290, रोहिणी, दिल्ली
6	323	नवीन नेगी	₹. 7,198/-	सी—।।/16, वेस्ट एन्क्लेव पीतमपुरा, दिल्ली
7	424	राजेंद्र कुमार गुप्ता	रु. 8,805 ∕ −	153, एफएफ, सरस्वती विहार, दिल्ली
8	430	ऊषा कपूर	₺. 8,378/-	बी—279, सरस्वती विहार, दिल्ली
		कुल	रु. 74,107 ∕ −	

एतद्दवारा लॉकर किराएदारों को सचित किया जाता है कि यदि बैंक को 7 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित लॉकर्स का किराया प्राप्त नहीं होता है. तो लॉकर को पटटा अनुबंध के उपवाक्यों के अनुसार संबंधित लॉकर किराएदारों के जोखिम और लागत पर तोड़कर खोल दिया जाएगा और बैंक जो है वह लॉकर में विद्यमान सभी वस्तुओं अथवा उनके किसी एक भाग की सार्वजनिक या निजी बिक्री करके अपनी बकाया धनराशियों की वसूली करेगा। बैंक की बकाया धनराशियों की पूरी तरह वसूली हो जाने के उपरांत शेष रहने/बचनेवाली लॉकर की वस्तुओं अथवा सामग्रियों तथा/अथवा किसी राशि को बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किराएदारों के संपूर्ण जोखिम, उत्तरदायित्व और लागत पर संभाल कर रखा जाएगा। यदि बैंक की बकाया धनराशियों की वसली के लिए की जानेवाली ऐसी बिक्री से प्राप्त आय अपर्याप्त होती है, तो इस अपर्याप्तता / कमी के लिए लॉकर किराएदार उत्तरदायी होंगे।

दिनांकः 21.05.2022, स्थानः नई दिल्ली शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड CIN No: U74899DL1992PLC048028 पंजी. कार्या.: यूनिट/शॉप नं. 205, दूसरा तल, अग्रवाल सिटी माल रोड नं. 44, पीतमपुरा उत्तर दिल्ली-110034 ईमेल आईडीः franklinleasingfinance@gmail.com

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुवर्ती एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने के लिए फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय मे

शनिवार, 28 मई, 2022 को अपराह्न 04.30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी की प्रतिभृतियाँ में लेन-देन के लिए ट्रैडिंग विंडो शेयर बाजार को कंपनी के वित्तीय परिणाम की घोषणा के बाद 48 घंटे के पूर्ण होने तक तुरंत प्रभाव बंद की जाएगी। बोर्ड के आदेशानुसार कते फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

ह./- रशमी भगत कंपनी सचिव दिनांक: 21.05.2022 सदस्यता नं. 54366

> 00 RAMA

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : बी-5. तीसरा तल. मेन रोड. गाजीपुर, नई दिल्ली-110096 CIN: L27201DL1974PLC007114 दुरभाष : +91-11-43446600 ई-मेल : investorsiramasteel.com

वेबसाइट : www.ramasteel.com सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) वे अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2022 कं समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु अन्य बातों के साथ-साथ कम्पर्न के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों व अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार. 30 मई, 2022 को आयोजित की जायेगी। यह सचना कम्पनी की वेबसाइट www.ramasteel.com; बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉव

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseir

dia.com पर उपलब्ध है। पुनः, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेत कम्पर्न के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बा तक ट्रेडिंग विंडो 1 अप्रैल, 2022 से बंद रहेगी। कृते रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली (कपिल दत्ता तिथि : 21.05.2022

कम्पनी सचिव

C. E. INFO SYSTEMS LIMITED

(formerly known as C.E. Info Systems Pvt. Ltd.)

Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot. No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase- III, New Delhi 110 020, India CIN: L74899DL1995PLC065551 :Website: www.mapmvindia.com; E-mail: cs@mapmvindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900.

Financial Year 2022 PAT PAT up **EBITDA** Revenue 45% to Rs Margin at up 31% to Margin at Rs 200 Cr 87 Cr 43% 36%

Extract of audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

(Rs. In							
Sr.			Quarter ended		Year ended	Year ended	
No.	Particulars	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
140.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total income from operations (net)	5,533.21	4,305.46	4,738.11	19,816.00	15,237.64	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,389.94	1,899.54	2,473.40	11,519.86	7,925.07	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,389.94	1,899.54	2,473.40	11,519.86	7,925.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,358.53	1,575.15	2,043.53	8,554.62	6,018.29	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,442.61	1,545.37	2,018.50	8,549.37	6,042.62	
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- for the year ended March 31, 2022)	1,064.86	1,064.86	13,279.65	1,064.86	13,279.65	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c.as shown in the Balance Sheet of previous year)	42,749.20	41,330.40	22,673.06	42,749.20	22,673.06	
8	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)	20.29	39000 90	84753) comence	
	(a) Basic (b) Diluted	4.59 4.48	2.96 2.90	3.89 3.78	16.07 15.67	11.44 11.13	

Extract of audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

_			(Rs. In takha Year ended			
Sr.	Particulars	31.03.2022	Quarter ended 31.12.2021	31.03.2021	Year ended 31.03.2022	31.03.2021
No.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	5,704.08	4,337.25	4,742.52	20,044.07	15,246.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,350.52	2,178.33	2,402.43	11,733.07	7,888.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,350.52	2,178.33	2,402.43	11,733.07	7,888.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,258.42	1,852.04	1,904.61	8,706.70	5,982.38
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,343.77	1,821.17	1,879.06	8,702.71	6,007.20
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- for the quarter and nine months ended December 31, 2021)	1,064.86	1,064.86	13,279.65	1,064.86	13,279.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c.as shown in the Balance Sheet of previous year)	43,530.96	41,429.88	22,494.00	43,530.96	22,494.00
8	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)	923		222		917814
	(a) Basic (b) Diluted	4.24 4.14	3.48 3.41	3.63 3.53	16.34 15.94	11.38 11.06

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of audited results for the guarter and year ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited results for the quarter and year ended 31st March 2022.

are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website at www.mapmyindia.com. 2. The previous periods numbers have been re-grouped and re-arranged wherever necessary to conform the current period presentation.

3. The above audited Standalone & Consolidated Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the "Company") are available on Company's website www.map-

myindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed. 4. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) specified under section 133 of the Companies Act. 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended).

5. Figures for the quarters ended 31 March 2022 and 31 March 2021 represents the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year to date reviewed figures upto the third quarter of the years ended 31 March 2022 and 31 March 2021 respectively.

6. The above Standalone & Consolidated Financials Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2022 (the "statement") were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 20, 2022. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on these Audited financial results. 7. The Company has only one business segment, i.e. Map data and Map data related services (GPS navigation, location-based services and IoT). This business

mainly consists of products like digital map data, GPS navigation and location-based services, licensing, royalty, annuity, subscription and customizing its products 8. The Board of Directors at its meeting held on February 4, 2022 had recommended interim dividend (Rs 2 per equity share of par value Rs 2 each) for the financial year ended March 31, 2022. The aforesaid dividend was paid during the year ended March 31, 2022. The same has been treated as final dividend for the year

ended March 31, 2022. 9. During the quarter ended March 31, 2022. The Company had acquired 75.98% shares of Gtropy Systems Private Limited for a cash consideration of INR 1350.02

The securities of the Company got listed with BSE & NSE w.e.f. 21.12.2021 through offer for sale.

The Company has not received any amount as proceeds from public issue of its shares.

Place: New Delhi

For and behalf of the Board of Directors of C.E. Info Systems Limited Rakesh Kumar Verma Managing Director DIN: 01542842

तिथि: 21.05.2022, स्थान: अलीगढ़ www.readwhere.co

आपका विश्वासभाजन, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

Date: May 21, 2022